

## प्रेस नोट दिनांक-27.05.2021

(1). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 27.05.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा रेलवे स्टेशन में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा ग्राम भवानीपुर, कसहाई रोड एवं शंकरबाजार, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम बसिला में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना आर्यनगर, शिवनगर, जवाहरनगर एवं रेलवे स्टेशन में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्रामों में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा कस्बा भरतकूप में, एंटी रोमियो टीम द्वारा राजापुर द्वारा विभिन्न ग्रामों में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृता/गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 105/2020 धारा 366 भादवि0 से सम्बन्धित पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया।

### बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
3. महिला आरक्षी पूनम

(3). कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के मार्गदर्शन में आज दिनांक-27.05.2021 को अग्निशमन टीमों द्वारा ग्राम कोठिलहाई थाना कर्वी के सम्पूर्ण आवासीय बस्ती में सेनेटाइज किया गया।